

दिल्ली पब्लिक स्कूल , गांधीनगर
अंतर सदनीय हँसी के फ़व्वारे प्रतियोगिता २०१९-२०२०



विषय : हँसी के फ़व्वारे	दिनांक : ०३/०८/ २०१९
स्थान : विद्यालय प्रांगण	कक्षा : ०४

“यदि आपके दिल में खुशी और चेहरे पर मुस्कान है तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।”

वैसे तो हँसने - हँसाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती लेकिन आपके ठहाकों में छिपी खुशहाली आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जीवन में हँसने - बोलने का महत्त्व है। खुश रहने वाले लोगों को कम बीमारियाँ होती हैं। कहते हैं कि हँसने से अनेक बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। जो हँसते हैं वे स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। समाज में हँसने - बोलने से सामूहिक सद्भावना बढ़ती है।

दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर के प्रांगण में ०३ अगस्त २०१९ को कक्षा ०४ छात्रों के लिए अंतरसदनीय हँसी के फ़व्वारे प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें नन्हें बच्चों ने चुटकुले प्रस्तुत किए। जिसमें बच्चों ने पूरे जोश और उल्लाश के साथ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया तथा बच्चों ने परीक्षा, राजनैतिक दल, मध्यवर्गीय परिवार और बच्चों पर चुटकुले प्रस्तुत करके सभी को हँसी से लोट-पोट कर दिया।

हँसी के फ़व्वारे प्रतियोगिता का उद्देश्य:-

- इस भाग- दौड़ भरी जिंदगी में तनाव भरा जीवन व्यतीत करने वालों का तनाव कम करने के लिए हँसना जरूरी है।
- हँसी के फ़व्वारे की यादे लोगों के जहन में इस कदर बस जाती है कि लोग पूरे साल इस सुनहरे लम्हों को याद कर मन ही मन हँसते रहते हैं।
- सामाजिक सक्रियता में विद्यार्थियों को रूचि दिलाना।
- शिक्षा के साथ-साथ खुशियाँ प्रदान करना।

मुख्य अतिथि तथा निर्णायकगण की हाज़री में प्रथम, द्वितीय एवम तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्रों द्वारा सम्मानित किया गया। जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

दिल्ली पब्लिक स्कूल , गांधीनगर
अंतर सदनीय हँसी के फ़व्वारे प्रतियोगिता २०१९-२०२०



कक्षा : ४

दिनांक : ०३-०८-१९

परिणाम - पत्रक

क्रमांक	प्रतिभागियों के नाम	विभाग	सदन	परिणाम
1.	नेहल वुन्डेल	एच	साबरमती	प्रथम
2.	तनीषा शीट	एफ	साबरमती	द्वितीय
3.	विधात्र पटेल	सी	माही	तृतीय



